

9/12/19 E

[This question paper contains 14 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 2943

JC

Unique Paper Code : 12277506

Name of the Paper : International Economics

Name of the Course : B.A. (H) Economics CBCS
DSE

Semester : V

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 75

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. The question paper is divided into **two** sections.
3. Attempt **five** questions in all, selecting **three** questions from **Section A** and **two** questions from **Section B**. **All** questions carry equal marks.
4. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.
5. Simple calculator is permissible.

P.T.O.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
2. यह प्रश्न पत्र दो भागों में बांटा गया है।
3. भाग - अ से कुल तीन और भाग - ब से कुल दो प्रश्नों का चयन करते हुए कुल पाँच प्रश्नों का उत्तर दें। सभी प्रश्नों के अंक सामान हैं।
4. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।
5. साधारण कैलकुलेटर का प्रयोग किया जा सकता है।

भाग - अ

SECTION - A

1. (a) Home and Foreign are the only two countries in a hypothetical world economy and each of them has only one factor of production labour which can produce two goods: cloth and wine. Home has 3000 units of labour and Foreign has 6000 units of labour. In Home one metre of cloth requires 3 hours of labour and one litre of wine production requires 2 labour hours. In Foreign one metre of cloth requires 5 hours of labour and one litre of wine production requires 3 labour hours. World

relative demand for cloth in terms of wine given as $Q_C/Q_W = P_W/P_C$.

- (i) Draw RS and RD curve and calculate the equilibrium relative price of cloth in terms of wine.
- (ii) Explain the gains from trade in term of the wage for Home.
- (iii) Other things being same, assume that the productivity of labour doubles in Home in the wine sector. How do international specialization and world equilibrium relative price of cloth (P_C/P_W) change? (4,3,3)

- (b) Assume a world comprising of two countries Home and Foreign which can produce only one good using a fixed factor land and another variable factor labor. Let us assume that land labour ratio in home is lower than in Foreign and markets are perfectly competitive in both the countries. Labor is perfectly mobile between the two countries. With the help of a diagram explain the effects of costless international mobility of labor on the wage rate and world output. (5)

(क) एक काल्पनिक विश्व अर्थव्यवस्था में स्वदेश और परदेश केवल दो देश हैं और उनमें से प्रत्येक के पास श्रम उत्पादन का केवल एक साधन है जो दो वस्तुओं, कपड़ा और शराब, का उत्पादन कर सकता है। स्वदेश में श्रमिकों की 3000 इकाइयां हैं और परदेश में श्रमिकों की 6000 इकाइयां हैं। स्वदेश में एक मीटर कपड़े के उत्पादन के लिए 3 घंटे श्रम की आवश्यकता होती है और एक लीटर शराब उत्पादन के लिए 2 श्रमिक घंटों की आवश्यकता होती है। परदेश में एक मीटर कपड़े के लिए 5 घंटों के श्रम की आवश्यकता होती है और एक लीटर शराब उत्पादन के लिए 3 श्रमिक घंटों की आवश्यकता होती है। शराब के सापेक्ष कपड़े के लिए विश्व की सापेक्ष मांग $Q_C/Q_W = P_W/P_C$ दी गयी है।

- (i) सापेक्ष पूर्ति (RS) और सापेक्ष मांग (RD) वक्र बनाएं और शराब के सापेक्ष कपड़े के लिए विश्व बाजार में सापेक्ष मूल्य की गणना करें।
- (ii) स्वदेश के लिए मजदूरी के सम्बन्ध में व्यापार से लाभ की व्याख्या करें।
- (iii) अन्य बातें समान रहते हुए, मान लीजिये कि शराब क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता दोगुना हो जाती है तो इसके परिमाणस्वरूप अंतरराष्ट्रीय विशिष्टीकरण और विश्व बाजार में कपड़े के सापेक्ष संतुलन मूल्य (P_C/P_W) में क्या परिवर्तन होते हैं ?

(ख) एक ऐसा विश्व मान लीजिये जिसमें स्वदेश और परदेश दो देश हैं जो कि एक स्थिर साधन भूमि और एक अन्य परिवर्तनीय साधन श्रम का उपयोग करके केवल एक वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। आइए मान लेते हैं कि स्वदेश में भूमि-श्रम अनुपात परदेश में भूमि-श्रम अनुपात की तुलना में कम है और दोनों ही देशों में बाजार पूरी तरह प्रतिस्पर्धी हैं। श्रम दोनों देशों के बीच पूरी तरह से गतिशील है। एक आरेख की मदद से मजदूरी दर और विश्व उत्पादन पर श्रम की लागतहीन अंतराष्ट्रीय गतिशीलता के प्रभावों की व्याख्या कीजिये।

2. (a) 'A production subsidy is better policy than an import tariff to address the domestic market failure.' Explain with the help of suitable diagram. (6)
- (b) A country produces wheat using land and labour and cloth can be produced using labour and capital. The supply of land, labor and capital is given and fixed. Labour can move across two sectors within the economy. Draw production functions for each sector, production possibility frontier for this economy and explain allocation of labour across two sectors. Assess the impact of an increase in the relative price of cloth on the allocation of labor between two sectors and effects on the distribution of income among the three factors of production. (9)

(क) 'घरेलू बाजार विफलता को संबोधित करने के लिए आयात प्रशुल्क की तुलना में एक उत्पादन सब्सिडी एक बेहतर नीति है।' उपयुक्त आरेख की मदद से समझाएं।

(ख) एक देश भूमि और श्रम का उपयोग करके गेहूं का उत्पादन और श्रम और पूंजी का उपयोग करके कपड़े का उत्पादन कर सकता है। भूमि, श्रम और पूंजी की पूर्ति की मात्रा दी गयी है और स्थिर है। अर्थव्यवस्था के भीतर श्रम दोनो क्षेत्रों में स्थानांतरित हो सकता है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए उत्पादन फलन और इस अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादन सम्भावना वक्र खींचिए तथा दोनो क्षेत्रों में श्रम के आवंटन को समझाइये। दोनो क्षेत्रों के बीच श्रम के आवंटन और उत्पादन के तीनों साधनों के बीच आय के वितरण पर कपड़े के सापेक्षिक मूल्य में वृद्धि के प्रभाव का आकलन करें।

3. (a) In a $2 \times 2 \times 2$ Heckscher-Ohlin model of international trade explain the relevance of the one to one correspondence between the relative price of goods and relative price of factors. How this relation relationship determines a correspondence between relative price of goods and relative factor intensities in the production of two goods? Explain with suitable diagrams. (9)

(b) With the help of production possibility curve, isovalue lines and indifference curves explain the derivation of relative supply (RS). Using relative demand and relative supply curves show the welfare effects for a country from an improvement in the terms of trade. (6)

(क) अंतरराष्ट्रीय व्यापार के $2 \times 2 \times 2$ हेक्शेयर-ओहलीन प्रतिरूप में वस्तुओं की सापेक्ष कीमत और साधनों की सापेक्ष कीमत के बीच एक से एक (one to one) तदनुरूपता की प्रासंगिकता की व्याख्या करें। यह संबंध दो वस्तुओं के उत्पादन में वस्तुओं के सापेक्ष मूल्य और सापेक्ष साधन गहनता के बीच एक तदनुरूपता निर्धारित करता है? उपयुक्त आरेखों के साथ समझाओ।

(ख) उदासीनता वक्र, उत्पादन संभावना वक्र और सम-कीमत रेखाओं की सहायता से सापेक्ष पूर्ति वक्र प्रशुल्क की व्युत्पत्ति की व्याख्या कीजिये। सापेक्ष मांग और सापेक्ष पूर्ति वक्रों का उपयोग करते हुए व्यापार की शर्तों में सुधार होने का एक देश के लिए कल्याणकारी प्रभाव समझाइये।

4. (a) The demand and supply curves for kiwifruits for Home and Foreign (asterisked) are given by :

Demand and supply curves	
Home	$D = 200 - 4P$ $S = 80 + P$
Foreign	$D^* = 250 - 3P$ $S^* = 150 + 2P$

- (i) Under free trade between Home and Foreign find the world equilibrium price of kiwifruit and pattern of trade.
- (ii) Calculate the net welfare effect of a specific tariff at the rate of 2 per unit on the import of kiwifruit imposed by Home.
- (iii) Beginning from part (i) calculate the net welfare effect of a specific export subsidy at the rate of 2 per unit on the export of kiwifruit imposed by Foreign.
- (iv) Calculate the rate of prohibitive specific tariff at which Home's import demand becomes zero. (3,3,3,3)
- (b) Show the difference between 'Optimum tariff' and 'Prohibitive tariff' in terms of their effect on national welfare. (3)

- (क) स्वदेश और परदेश के लिए कीवी फल के लिए मांग और पूर्ति वक्र इस प्रकार दिए गए हैं :

मांग और पूर्ति वक्र	
स्वदेश	$D = 200 - 4P$ $S = 80 + P$
परदेश	$D^* = 250 - 3P$ $S^* = 150 + 2P$

- (i) स्वदेश और परदेश के बीच मुक्त व्यापार के निहित कीवी फल के अंतराष्ट्रीय व्यापार के स्वरूप और विश्व बाजार में कीवी फल के संतुलन मूल्य की गणना कीजिये।
- (ii) कीवीफल के आयात पर स्वदेश द्वारा लगाए गए प्रति इकाई की दर से एक विशिष्ट प्रशुल्क के शुद्ध कल्याण प्रभाव की गणना करें।
- (iii) भाग (i) से शुरू करते हुए परदेश के द्वारा कीवीफल के निर्यात पर 2 प्रति इकाई की दर से एक विशिष्ट निर्यात सब्सिडी दिए जाने के शुद्ध कल्याण प्रभाव की गणना करें।
- (iv) निषिद्ध विशिष्ट प्रशुल्क की उस दर की गणना करें जिस पर स्वदेश में आयात मांग शून्य हो जाती है।

- (ख) राष्ट्रीय कल्याण पर प्रभाव के संदर्भ में 'अनुकूलतम प्रशुल्क' और 'निषिद्ध प्रशुल्क' के बीच अंतर दिखाएं।

5. Write short notes :

- (a) Effective rate of protection
(b) Comparative advantage in Intertemporal trade
(c) Leontief Paradox (5,5,5)

लघु टिप्पणी लिखें :

- (क) संरक्षण की प्रभावी दर
(ख) अंतरकालिक व्यापार में तुलनात्मक लाभ
(ग) लियोटिफ विरोधाभास

भाग - ब

SECTION - B

6. (a) With the help of DD-AA and XX schedules explain the effects of monetary and fiscal interventions both temporary and permanent in an economy on current account. (9)

- (b) Examine the expenditure-changing and Expenditure-switching Policies in correcting internal and external imbalances under the Bretton Woods system. (6)

(क) डीडी-एए और एक्सएक्स वक्रों की सहायता से एक अर्थव्यवस्था के चालू खाते पर मौद्रिक और वित्तीय हस्तक्षेपों के अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार के प्रभावों को समझाइये।

(ख) ब्रेटन वुड्स पद्धति के अंतर्गत आंतरिक और बाहरी असंतुलनों को ठीक करने के लिए व्यय-परिवर्तन और व्यय-बदलाव नीतियों की जांच कीजिये।

7. (a) The balance sheet of the central bank of Moorland is given below :

Balance Sheet of the Central Bank of Moorland			
Asset (Rupees Billion)		Liability (Rupees Billion)	
Domestic Assets	1500	Deposits held by the Private banks	2500
Foreign Assets	2500	Currency in Circulation	1500
Total Assets	4000	Total Liabilities	4000

Explain the effects on money supply and changes in composition of the balance sheet of the central bank of Moorland :

(i) Non sterilized purchase of foreign assets worth 500 billion rupees.

(ii) Sterilized sale of foreign assets worth 500 billion rupees. (3)

(b) Examine the effectiveness of sterilized sale of foreign assets under imperfect asset substitutability. Draw suitable diagram. (7)

(c) Does the unregulated nature of a global banking activity leave the world financial system vulnerable to bank failure? If yes, what measures have governments taken to reduce it? (5)

(क) मूरलैंड के केंद्रीय बैंक का तुलन पत्र नीचे दिया गया है :

मूरलैंड के केंद्रीय बैंक का तुलन पत्र			
परिसंपत्ति (अरब रुपये)		देयता (अरब रुपये)	
घरेलू परिसंपत्तियाँ	1500	निजी बैंकों में जमाएं	2500
विदेशी परिसंपत्तियाँ	2500	चलन में मुद्रा	1500
कुल परिसंपत्तियाँ	4000	कुल देयताएँ	4000

मूरलैंड के केंद्रीय बैंक के तुलन पत्र की संरचना और मुद्रा की पूर्ति में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करें :

(i) 500 अरब रुपये की विदेशी परिसंपत्ति का गैर-अनुर्वर क्रय

(ii) 500 बिलियन रुपये की विदेशी परिसंपत्ति का अनुर्वर विक्रय

(ख) अपूर्ण परिसंपत्ति प्रतिस्थापन के अंतर्गत विदेशी संपत्तियों की अनुर्वर बिक्री की प्रभावशीलता की जांच करें। उपयुक्त आरेख बनाइये।

(ग) क्या वैश्विक बैंकिंग गतिविधि की अनियमित प्रकृति विश्व वित्तीय प्रणाली को बैंक विफलता के लिए लाचार स्थिति में छोड़ देती है ? यदि हाँ तो सरकारों ने इसे कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

8. Write short notes :

(i) Interest parity condition

(ii) Financial Trilemma

(iii) Liquidity trap in DD-AA model (5,5,5)

लघु टिप्पणी लिखें :

(i) ब्याज समानता की शर्त

(ii) वित्तीय ट्रीलेमा

(iii) DD-AA प्रतिरूप में तरलता जाल

munotes.in